



थाना हसनपुर प्रेस नोट दिनांक 29.05.2021

थाना हसनपुर पुलिस द्वारा बाद पुलिस मुठभेड वांछित शातिर लूटेरे मय लूटे रुपयों व अवैध शस्त्रों सहित गिरफ्तार ।

अपराध नियंत्रण एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत श्रीमती सुनीति पुलिस अधीक्षक अमरोहा के नेतृत्व, अपर पुलिस अधीक्षक अमरोहा श्री अजय प्रताप सिंह के कुशल निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी हसनपुर श्री सतीश पाण्डेय के निकट पर्यवेक्षण में कल दिनांक 28/29.05.2021 की रात्रि थाना हसनपुर पुलिस द्वारा बाद पुलिस मुठभेड लुट के अभियोग मे वांछित चल रहे 02 अभियुक्त 1. मनवीर पुत्र रामओतार 2. सतीश पुत्र गोपी निवासीगण ग्राम गंगाचोली थाना हसनपुर जनपद अमरोहा को मय अवैध शस्त्र व लूटे गये 50,000/- रुपये सहित गिरफ्तार किया ।

अवगत कराना है कि कल दिनांक 28.05.2021 को वादी चन्द्रपाल पुत्र हरवंश निवासी ग्राम कनैटा की मढैया थाना सैदनगली जनपद अमरोहा अपने रिश्तेदारों के साथ 02 मोटर साईकिलों पर सवार होकर हसनपुर तहसील मे बैनामा कराने जा रहे थे तो काला खेडा शुगर मील से थोडा आगे हसनपुर रोड पर पीछे से एक मोटर साईकिल (अपाचे बिना नम्बर प्लेट) पर सवार दो लडके आये और मोटर साईकिल पर सवार चन्द्रपाल उपरोक्त को गिराकर जान से मारने की धमकी देते हुये पैसा से भरा थैला छीनकर ले गये, जिसमे 2,02,000/- रुपये थे । जिसके सम्बन्ध में वादी चन्द्रपाल की तहरीर पर थाना हसनपुर पर मु0अ0सं0 216/2021 धारा 392/506 भादवि बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया था । उक्त घटना का 02 घंटो में सफल अनावरण करते हुये हसनपुर पुलिस द्वारा तत्परता से पतारसी सुरागरसी करते हुये अभियुक्त सौ सिंह पुत्र हरदत्त निवासी ग्राम गंगाचोली थाना हसनपुर जनपद अमरोहा को मय एक तमंचा 12 बोर मय 02 जिन्दा कारतूस 12 बोर व लूटे गये 1,52,000/- रुपये (मय थैला) सहित गिरफ्तार किया गया तथा प्रकाश में आये 02 अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी व शेष लूटे रुपयों की बरामदगी हेतु थाना हसनपुर पुलिस टीम द्वारा विभिन्न स्थानों पर लगातार छापेमारी/तलाश की जा रही थी ।

कल दिनांक 28/29.05.2021 की रात्रि करीब 09.05 बजे थाना हसनपुर पुलिस द्वारा मुखबिर की सुचना पर उक्त लूट की घटना में फरार/वांछित चल रहे 02 अभियुक्त 1. मनवीर पुत्र रामओतार 2. सतीश पुत्र गोपी निवासीगण ग्राम गंगाचोली थाना हसनपुर जनपद अमरोहा को बाद पुलिस मुठभेड तिसरा मिल के पास से गिरफ्तार कर लिया जिसके कब्जे से लूटे गये 50,000/- रु0, एक तमंचा 12 बोर मय 01 जिंदा कारतूस, 01 खोखा कारतूस 12 बोर व 01 नाजायज चाकू बरामद हुये । गिरफ्तार व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना हसनपुर पर अभियुक्तगण के विरुद्ध मु0अ0सं0 219/2021 धारा 307 भादवि, मु0अ0सं0 220/2021 धारा 3/25 आयुद्ध अधि0 बनाम मनवीर, मु0अ0सं0 221/2021 धारा 4/25 आयुद्ध अधि0 बनाम सतीश उपरोक्त पंजीकृत किया गया ।

पूछताछ का विवरण-

पूछताछ करने पर अभियुक्तगण मनवीर व सतीश उपरोक्त द्वारा बताया गया कि कल सुबह हमने अपने साथी अभियुक्त सौ सिंह पुत्र हरदत्त निवासी ग्राम गंगाचोली के कहने पर उसके फुफा वादी चन्द्रपाल को जब वह जमीन का बैनामा कराने हसनपुर आ रहे था योजना के अनुसार अभियुक्त सौ सिंह सुबह चन्द्रपाल के साथ उनके गाँव कनैटा की मढैया थाना हसनपुर से आ रहा और हम लोग अपाचे मोटरसाईकिल पर कालाखेडा चीनी मिल के पास रोड पर खडे हो गये थे जैसे ही दोनो मोटरसाईकिल पर अभियुक्त सौ सिंह व वादी चन्द्रपाल हमारे सामने आये तो सौ सिंह ने हम लोगो को मोटरसाईकिल के बीच मे बैठे व्यक्ति की तरफ जो थैला पकडे बैठा था की ओर इशारा किया तो हम अपाचे मोटरसाईकिल जिसे अभियुक्त मानवीर चला रहा था और चीनी मिल के पास मोटर साईकिल की बगल मे आकर मोटरसाईकिल से मोटरसाईकिल मे टक्कर मार कर गिरा दिया बीच मे बैठे व्यक्ति चन्द्रपाल से थैला छिनकर पहले से तय अभियुक्त सौ सिंह द्वारा बताये स्थान नई मुन्सफी पर आ गये करीब एक घण्टे बाद सौ सिंह भी हमारे पास आ गया और हम तीनो अपाचे मोटरसाईकिल से अगरौला होते हुए गंगाचोली आये थे जहा पर एकान्त जगह में सौ सिंह ने लूट के रुपयों मे से 50 हजार रुपयें हम दोनो को दे दिये बाकि बचे रुपये उसी थैले मे कन्धे पर टाँग लिये और हम लोग तीनो सौ सिंह, मनवीर व सतीश गंगाचोली के करनखाल की तरफ आ रहे थे मोटरसाईकिल को सौ सिंह चला रहा था कि सामने से एकदम पुलिस आ गयी और चलती मोटरसाईकिल से कुदकर मनवीर व सतीश दोनो खेतों की तरफ भाग गये और सौ सिंह को पुलिस ने मोटरसाईकिल सहित पकड लिया था । हम दोनो अन्धेरे का फायदा उठाकर छिपते छिपाते

यहां तिसरा मिल आये थे तथा पुलिस से बचने व फरार होने के लिये यहा हम किसी वाहन का इन्तजार कर रहे थे ।



गिरफ्तार अभियुक्तगण:-

1. मनवीर पुत्र राम अवतार निवासी ग्राम गंगाचोली थाना हसनपुर जनपद अमरोहा ।
2. सतीश पुत्र गोपी निवासी ग्राम गंगाचोली थाना हसनपुर जनपद अमरोहा ।

बरामदगी:-

1. लूट के 50,000/- रुपये ।
2. एक तमंचा 12 बोर व 01 जिंदा कारतूस, 01 खोखा कारतूस 12 बोर ।
3. एक नाजायज चाकु ।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त मनवीर:-

1. मु0अ0सं0 216/21 धारा 392/506 भादवि थाना हसनपुर जनपद अमरोहा ।
2. मु0अ0सं0 220/21 धारा 3/25 आयुद्ध अधि0 थाना हसनपुर जनपद अमरोहा ।
3. मु0अ0सं0 219/21 धारा 307 थाना हसनपुर जनपद अमरोहा ।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त सतीश:-

1. मु0अ0सं0 216/2021 धारा 392/506 भादवि थाना हसनपुर जनपद अमरोहा ।
2. मु0अ0सं0 219/2021 धारा 307 थाना हसनपुर जनपद अमरोहा ।
3. मु0अ0सं0 221/2021 धारा 4/25 आयुद्ध अधि0 थाना हसनपुर जनपद अमरोहा ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री संजय तोमर थाना हसनपुर जनपद अमरोहा ।
2. उ0नि0 श्री आन्नदपाल सिंह थाना हसनपुर जनपद अमरोहा ।
3. का0 235 शिव सिंह थाना हसनपुर जनपद अमरोहा ।
4. का0 341 गौरव थाना हसनपुर जनपद अमरोहा ।
5. का0 1141 पंकज थाना हसनपुर जनपद अमरोहा ।
6. का0 988 विकास थाना हसनपुर जनपद अमरोहा